



यदि समय रहते हुए नहीं चेते तो हवा पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा – पर्यावरणविद

टुडे इंडिया न्यूज 24.com, उत्तर प्रदेश

आशुतोष तिवारी | 24 अप्रैल 2022

22 अप्रैल, 2022 को पृथ्वी दिवस के अवसर पर धरती को हरभरा रखने, इसे प्रदूषण मुक्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने, व अधिक से अधिक पेड़ लगाने के साथ पृथ्वी की सम्पदा के दोहन को कम करने तथा पानी बचाने के प्रयास पर स्कूल ऑफ मैनेजमेण्ट साईंसेज, लखनऊ द्वारा वृक्षारोपण किया गया तथा वक्ताओं ने विचार व्यक्त किया। जिसमें महानिदेशक (तकनीकी), स्कूल ऑफ मैनेजमेण्ट साईंसेज, लखनऊ तथा पर्यावरणविद पर्यावरणविद भरत राज सिंह ने कहा कि हम सब जानते हैं कि “बढ़ती आबादी, घटते पेड़” से धरती पर संकट गहराया है। पिछले सात (07) वर्षों में भारत देश की आबादी लगभग 10करोड़ बढ़ गई है, जो पूर्व 2015 में 127 करोड़ थी, अब वर्ष 2022 में 8% बढ़कर लगभग

137 करोड़ हो गई है। वहीं सात (07) वर्षों में पूरे विश्व की आबादी में 55 करोड़ का इजाफा हुआ है जो वर्ष 2015 में 738 करोड़ थी। अब बढ़कर 793 करोड़ हो चुकी है। बढ़ी 7% आबादी का सीधा असर प्रकृति पर मौजूद प्राकृतिक सम्पदा को खत्म करने पर सीधे पड़ रहा है।



आबादी का सबसे बड़ा खतरा उन क्षेत्रों में है जहां की आबादी घनी होती जा रही है, जिससे प्राकृतिक संसाधन कम पड़ने लगे हैं और पानी का भी संकट दिखने लगा है। प्रदूषण भी अपना भीषण गर्मी के रूप में तथा अप्रत्यासित चक्रवाती वारिस के रूप में असर दिखाना शुरू कर दिया है। यदि समय रहते न चेते तो उपलब्ध पानी और हवा के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।

उपरोक्त बातें पृथ्वी दिवस के अवसर पर स्कूल ऑफ मैनेजमेण्ट साइंसेज, लखनऊ में छात्र-छात्राओं तथा अन्य लोगों में चेतना जगाने हेतु पर्यावरणविद् भरत राज सिंह ने कहा इस अवसर पर पृथ्वी दिवस के अवसर पर धरती को हराभरा रखने, इसे प्रदूषण मुक्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने, व अधिक से अधिक पेड़ लगाने तथा पृथ्वी की सम्पदा के दोहन को कम करने एवं पानी बचाने के प्रयास हेतु श्री शरद सिंह, सचिव व कार्यकारी-अधिकारी, डॉ० मनोज मेहरोत्रा-निदेशक, व डॉ० भरत राज सिंह पर्यावरणविद् व महानिदेशक आदि ने अपने वक्तव्य में वचनबद्धता की प्रेरणा दिये। इस अवसर पर संस्था में बृक्षारोपण भी किया गया, जिसमें डीन, डा. धर्मेंद्र सिंह कुलसचिव, श्री एस.एन.शुक्ला, प्रिंसिपल, डिप्लोमा, एस.एन. झरोरिया एवं विभागाध्यक्ष तथा कम्प्यूटर साइंस के छात्र-छात्रायें भी उपस्थित रहे।